PUBLIC NOTICE

his above said son, and his wife, and his/h

local hairs. That he has released his all relation

om his son, and his wife, and his/her lea

heirs. Anybody dealing with Vishal Gupta', an

is wife namely "Reshma Gupta", and his/hi

One Daughter & One Son namely "Bhumi Gupta

and Abhinav Gupta" and his/her legal heirs, ow

risk and responsibilities and my client will not b

esnonsible for any act, deed our dealing done by

Gobind Kumar (Advocate)

New Delhi-110059 have changed my name to Suman Singh PERSONAL

Vishwas Park Uttam Nagar

I,Prachi Vij Rohodia,D/o Ashok

Vij,R/o H.No.B-27,3rd-Floor,

Lajpat.Nagar-4, New Delhi-

110024, have changed my

name to Prachi Vij, perma-

I, Nazmuddin s/o-Alimuddin, R/o

12A/1F, Vijay Mohalla, Main-

Road, Maujpur, Delhi-110053,

I,Parveen Kumar,s/o Suresh

have changed my name to

Naimuddin, permanently

Chand, R/o 5, Phiahu-Wali

name to Praveen Kumar

Solanki, permanently.

0040627478-10

permanently.

GOA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION

Plot No. 13 A-2, EDC Complex, Patto Plaza,

Panjim Goa 403001

Phone: +91 8208313435

REQUEST FOR BIDS (RFB)

(e-procurement mode only)

Tender No: GIDC/22-23/01 dated 17/08/2022

E-Tender cum E-Auction of Prime Industrial Plots

(on Leasehold Basis) at Verna, Goa

Goa IDC now invites Bids (in Round 3) through the e-tender cum e-

auction of following 37 (Thirty Seven) select prime "Industrial

Undertaking" Use plots situated at Verna, Goa on long term lease

1-22G

1-221

1-22K

1-24L

I-24J

I-22B

I-22D

1-22F

I-22H

Detailed Request for Bid (RFB) document, including details of Plots,

and draft Lease Deed can be downloaded from

I-18 30000

25175

23500

15225

1425

1800

2992

2000

1425

1-21

1-25

1-29

I-24C

1-27

I-22A

1-22C

1-24E

https://eprocure.goa.gov.in/nicgep/app.

Gali, Nasir Pur Village, New

Delhi-110045, have changed my

I,Najmuddin R/o.12A/1F,Vijay

Mohalla, Main-Road, Maujpur,

Delhi-110053, have changed my

minor son name, from Noman

to Noman Malik, permanently

Narayan Gupta and father of

Nikhil Gupta r/o A-2/95, 2nd

floor, Paschim Vihar, Delhi-

name to Rakesh Kumar Gupta

I. Raj Bala Gupta w/o Rakesh

Kumar Gupta and mother of

Nikhil Gupta r/o A-2/95, 2nd

floor, Paschim Vihar, Delhi-

name to Raj Bala permanent-

110063 have changed my

Email: eauctiongidc@gmail.com

992

1000

2000

4030

1425

2000

1000

992

1000

0040627422-3

0040627422-1

Plot no. Sq. Mts.

2000

2992

2138

1425

1417

2138

1425

1417

I-22E 1000

1-22J

1-22L

1-24K

1-241

1-24G

I-24B

1-24D

1-24F

110063 have changed my

I, Rakesh Gupta s/o Satya

Dayanand-Colony,

nently.

0040627421-2

0040627478-7

0040627478-11

It is for general information that I, AFSANA D/o MOHD. RAFI R/o-26, Gali. No. 4D, Aram, Park Shastri, Nagar East Delhi-110031, declare that name of my, father and my Mother has been

Classifieds

wrongly, written as RAFI and RUKSANA in my Educational, Documents. The actual name of my father and my mother are MOHD. RAFI and RUKHSANA respectively, which may be

amended, accordingly.

0040627476-9

I.Shantanu Shankar Das s/o-Shankar Manmohan Das, R/o.H.No-250, Ashoka Enclave Part-3, Sec-35, Faridabad-121003, Haryana, have changed my name to Shantanu Das. permanently. 0040627478-8

I,Seleem Ahmed Saifi,s/o Abrar Ahmad Saifi R/o.H.No. 277A, Gali.No.15, Jafrabad, Delhi-110053, have changed my name to Saleem Ahmad Saifi permanently.

I.Sachin Kumar,s/o Late Sh.Kishan Kumar.R/o.H.No-

0040627478-12

1/6431, Gali. No-5, East Rohtas Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Sachin Kumar Verma, permanently. 0040627485-11

I,Rita Sharma,W/o Shekar Chand Joshi R/o.4823,2nd Floor, IP. Extn-2, 12th-Avenue Sector-49, Faridabad, Haryana-121001, have changed my name to Rita Rani Sharma.

Website: www.goaidc.com

GOA-IDC

Plot no. Sq. Mts.

1-19

1-26

1-28

1-24H

1-15

1-17

35993

4030

45000

25850

30000

26500

1500

1425

37500

45000

0040627485-10

MAGNUM VENTURES LIMITED

FINANCIAL EXPRESS

CIN: L21093DL1980PLC010492 Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 Tel: +91-11-42420015 | E-mail: magnumventures@gmail.com Website: www.magnumventures.in

Notice of 42nd Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Friday, 09th September, 2022 at 01:00 P.M. through Video conferencing ("VC") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting. The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year ended 31st March, 2022 and remote e-voting details have been sent to all the members who hold shares as on record date, i.e. 12th August, 2022, by email, whose email id is registered with the Company/ RTA/ Depository(s). The date of completion of email of the notices to the shareholders is August 17th, 2022. The said documents can also be viewed on the company's website at www.magnumventures.in

Pursuant to General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13,2022, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), allowed Companies to hold AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for FY 2021-22 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of AADHAR Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 3rd September, 2022 to 9th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with

rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically.

The member please note the followings:

 a. The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Tuesday, 6th September, 2022and shall end at 05.00 p.m. on Thursday, 8th September 2022. The remote e-voting shall not be available beyond the aforesaid date & time

b. The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and e-voting at AGM is 2nd September, 2022.

c. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 2nd September, 2022, may obtain the user id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or M/s MAS Services Ltd., R & T Agent of the Company at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II. New Delhi-110020 Phone-011-26387281/82/83. Fax- 011-26387384.

However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members may go through the detailed e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit https://evotingindia.com and Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms.Aaina Gupta, Company Secretary, Magnum Ventures Limited at cs_mvl@cissahibabad.in or to Mr. Shravan Mangla, GM, Mas Services Limited, RTA at

Mr. Munish Kumar Sharma (Advocate and Insolvency Professional), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

For Magnum Ventures Limited Date: 17/08/2022

Place: Ghaziabad

Pardeep Kumar Jain (Managing Director) DIN: 00024879

Bid Schedule

 The RFB shall be available for download from 17/08/2022. Last date & time for submission of online Bids in the format

prescribed in the RFB Document is 07/10/2022, 18:30 Hrs IST. GOA IDC reserves its right to reject any or all the Bids received, or annul the process at any stage in the paramount interest of GOA IDC/ Government of Goa and without assigning any reasons whatsoever.

Managing Director

Aye Finance Private Limited

CIN - U65921DL1993PTC283660

Registered Office: M-5, Magnum House-I, Community Centre, Karampura, New Delhi, West Delhi DL 110015

Ph.: 01244844000, Email: corporate@ayefin.com, website: www.ayefin.com

Extract of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2022 (All amounts are in Rs. crores unless otherwise stated)

Particulars Quarter ended | Quarter ended Year ended June 30, 2022 March 31, 2022 June 30, 2022

		Unaudited Refer note 3	Unaudited	Audited Refer note 3
1	Total income from operations	144.98	124.82	443.49
2	Net profit / (loss) for the quarter / year (before tax, exceptional and / or extraordinary items) (Refer note 3)	11.31	(51.08)	(67.41)
3	Net profit / (loss) for the quarter / year before tax (after exceptional and / or extraordinary items) (Refer note 3)	11.31	(51.08)	(67.41)
4	Net profit / (loss) for the quarter / year after tax (exceptional and / or extraordinary items) (Refer note 3)	8.12	(38.23)	(45.72)
5	Total comprehensive income / (loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the year (after tax) and other comprehensive income (after tax) for the year] (Refer note 3)	9.78	(38.23)	(44.74)
6	Paid up equity share capital	30.45	30.45	30.45
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (Refer note 4)	14.85	14.85	4.72
8	Securities premium account	659.34	659.34	659.34
9	Net worth (Refer note 5)	669.30	669.30	653.15
10	Paid up debt capital / Outstanding debt (Refer note 6)	1,521.94	1,521.94	1,524.63
11	Outstanding redeemable preference shares	-	-	
12	Debt equity ratio (Times)	2.30	2.30	2.36
13	Earnings per equity share (Nominal value of Rs. 10/- each) (Refer note 7)			
	Basic EPS (Rs.) *	2.62	(12.33)	(14.74)
	Diluted EPS (Rs.) *	2.59	(12.33)	(14.74)
14	Capital redemption reserve	NA	NA	NA
15	Debenture redemption reserve	NA	NA	NA
*Fo	rnings nor share for the quarters are not annualised	177	rich (der	

* Earnings per share for the quarters are not annualised

Notes:

1 Aye Finance Private Limited (the 'Company') has prepared unaudited financial results (the 'Statement') for the guarter ended June 30, 2022 in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations, 2015') and the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended

company, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2022. The report is being filed with the Bombay Stock Exchange ("BSE") and is also available on the Company's website www.ayefin.com

The figures of quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year ended March 31, 2022 and reviewed figures for the nine months ended December 31, 2021. The corresponding figures for quarter ended June 30, 2021 were approved by

Includes 'Surplus/ (Deficit) in statement of profit and loss', 'statutory reserves', and 'other comprehensive income'.

Net-worth is computed as, 'total equity' less deferred tax assets less intangible assets less Prepaid expenses.

8 The figures for the previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to conform to current period

10 Pertinent disclosures with respect to other line items referred to in regulation 52(4) of the LODR Regulations have been made to the Exchange and

For and on behalf of the Board of Directors

Sanjay Sharma

PUBLIC NOTICE To be known to all that I, BAL KISHAN GUPTA S/O LATE SHRI KIRPA RAM opal Prasad Gupta son of Late Yagendra Prasa GUPTA, RESIDENT OF C-51, SAMAY upta R/D H. No. 12 (Ground Floor) Gopal Naga VIHAR APPT., SECTOR - 13, ROHINI, NEV DELHI- 110085. Purchaser of PLOT NO Newal Park, Delhi-110033 That my client 25, MEASURING 32.00 SQ. MTRS. loing expelled/disowned his son namely "Vish POCKET- 8. SECTOR -23. ROHINI. NEV Sunta" and his wife namely "Reshma Gunta" and his/her One Daughter & One Son name 24(1866)1991/RHN. The Original (1. Allotment cum Demand Letter. (2.) DDA Shumi Gupta" and Abhinay Gupta" and his/he egal heirs, from his all Movable & Immovab Possession Letter. (3.) Site Poss reporties / Lien / Interest etc. That in future I shall never be responsible for any work done by

Slip. (4.) Perpetual Lease Deed. (5.) Bank Challan. (7.) General Power of Attorne (8.) Original Agreement to Sale. (9.) Payment Receipts. (10.)Will and Other Relevant Documents. of the above said property have been lost. A FIR to this effect has been lodged in the Police Station: Crime Branch, Delhi. Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of Original documents, may Write/ Contac with the above named person at th above address/ MOBILE no.:981039628 or Dv. Director (LAB) Rohini or Director RL), DDA , C-1, 3rd floor, VikasSadan New Delhi within 15 days from the Date o Publication of this notice.

E. No. D/1633/2006; Ch. No. 128, Supreme Court of India New Delhi-110001

Fishal Gupta and his family

The Federal Bank Ltd.

FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner 31st Milestone, Adjacent to Kia Motors GT Karnal Road, Kundli-131028, Haryana Regd. Office. Alwaye, Kerala

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been

regularized so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 02.09.2022 as shown below: BRANCH/VENUE Name Account Number Sandeep The Federal Bank Ltd. 21166100003098 31st Milestone, Adjacent to Raju Kapoor 21166100003908 Kia Motors, GT Karnal Road, Raju Kapoor 21166400002360

Rohit Kumar Sharma Kundli-131028, Haryana 21166400003608 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.) Place: HARYANA DATE: 17.08.2022

(This is only an advertisement for information purpose and is not a prospectus announcement.)

L JFL LIFE SCIENCES LIMITED

of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Pursuant to a special resolution of our Shareholders passed in the extra-ordinary general meeting held on February 10, 2022, our Company was converted from a private limited company to public limited company and consequently, the name of our Company was changed to JFL Life Sciences Limited', and a fresh certificate of incorporation dated March 3, 2022 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad. The corporate identification number of our Company is U24230GJ2010PLC060417. For details of change in Registered Office of our Company, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" on page 123 of the Prospectus.

CIN: U24230GJ2010PLC060417

Registered office: 309, Satyam Mall, Opp. Saman Complex, Nr. Vishweshwar Mahadev Mandir, Satellite, Ahmedabad-380015 Gujarat, India Website: www.jfllifesciences.com | E-Mail: cs@jfllifesciences.com | Telephone No: +91 937 729 5575 Company Secretary and Compliance Officer: Pratima Singh

PROMOTERS OF THE COMPANY: SMIRAL ASHWINKUMAR PATEL AND TEJAL SMIRAL PATEL

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 29,78,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF JFL LIFE SCIENCES LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹61/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹51/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"). AGGREGATING ₹1,816.58 LACS ("ISSUE") OF THE ISSUE, 1,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 91.50 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 28,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹61/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹1,725.08 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.08% AND 25.71%. RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THIS ISSUE IS BEING IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIERMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME.

For further details see "TERMS OF THE ISSUE" beginning on Page no. 176 of the Prospectus

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹61. THE ISSUE PRICE IS 6.1 TIMES OF THE FACE VALUE.

OPENS ON: THURSDAY, AUGUST 25, 2022 CLOSES ON: TUESDAY, AUGUST 30, 2022

Minimum 2000 EQUITY SHARES FOR RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS Lot Size 4000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2000 EQUITY SHARES THEREAFTER FOR HNI CATEGORY

Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it !!! *Application Supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to ASBA* issue by simply blocking the fund in the bank account, investor can avail the same. For details, check section on ASBA below.

UPI NOW AVAILABLE IN ASBA FOR RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS. For Details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Abridge Prospectus and please refer to the

section "Issue Procedure" beginning on page no. 185 of the Prospectus. The process is also available on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), in General Information Document. List of Banks supporting UPI is also available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in). APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all

investors. Further as per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, all Retail Individual Investors can also apply through Unified Payments Interface ("UPI"). The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 185 of the Prospectus.

value of the equity shares is ₹10.00. The Issue Price (as determined and justified by our Company in consultation with the Lead Manager as stated in "Basis for Issue Price" on page no. 70 of the Prospectus) should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing. ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: Our Company, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that the Prospectus contains all information with regard to Our Company and the Issue which is material in the context of the Issue, that the information contained in the Prospectus is true and correct in

all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the

RISKS IN RELATION TO FIRST ISSUE: This being the first Public Issue of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares of our Company. The face

omission of which makes the Prospectus as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading, in any material respect. Information under Section 30 of the Companies Act, 2013: The information regarding the content of Memorandum of Association of our Company as regards Main Objects are available on page no. 123 of the Prospectus of the Company. The Liability of the Members is limited. Our Authorized Share Capital comprises of 11500000 Equity Shares of ₹10/- each aggregating to ₹1150 Lakh. The present issued, subscribed and paid-up share capital comprises of 80,20,441 Equity Shares of ₹10/- each aggregating to ₹802.04 Lakh. We are proposing to issue 29,78,000 Equity Shares of ₹10/- each in terms of the Prospectus dated August 11, 2022 at a price of ₹61/- per share including premium of ₹51/- per equity share.

The Names of signatories to the Memorandum of Association of our Company at the time of Incorporation and number of shares subscribed by them is as follows: Name of Signatories No. of Equity Shares subscribed (Face Value ₹10/- each)

The prese	nt capital structure of the Company is as follows;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
J	Total	10000
2	Mr. Naimesh Jagdishbhai Thakkore	5000
. 31	Mr. Smiral Ashwinkumar Patel	5000

	outogory or ondronorders	Tro. or onoronous	Tro. or onero nore	
1	Promoters and Promoter Group	11	74,20,441	92.52
2	Public	10	6,00,000	7.48
	Total	21	80,20,441	100.00
	<u> </u>			

LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). Our Company has received an 'in-principle' approval letter dated July 06, 2022 from NSE for using its name in this offer document for listing our shares on the Emerge Platform of the NSE. For the purpose of this Offer, the Designated Stock Exchange will be NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: Since the Issue is being made in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Offer Document had been filed with SEBI, However SEBI shall not issue any observation on the Prospectus. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer full text of the Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 169 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE' appearing on the page no. 171 of the Prospectus LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

GYR ¹ Capital Advisors	▲ KFINTECH	\mathscr{I}
GYR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 428, Gala Empire, Near J.B. Tower, Drive In Road, Thaltej, Ahmedabad – 380054, Gujarat, India. Tel: +91 87775 64648 Email: info@gyrcapitaladvisors.com Website: www.gyrcapitaladvisors.com Contact Person: Mr. Mohit Baid SEBI Registration Number: INM000012810	KFIN TECHNOLOGIES LIMITED (Formerly known as KFIN Technologies Private Limited) Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana— 500 032 Tel: +91 40 6716 2222 Fax: +91 40 2343 1551 Email: jfl.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221	Pratima Singh C/O JFL LIFE SCIENCES LIMITED 309, Satyam Mall, Opp. Saman Complex, Nr. Vishweshwar Mahadev Mandir, Settelite, Ahmedabad-380015 Gujarat, India Website: www.jfllifesciences.com; E-Mail: cs@jfllifesciences.com; Telephone No:+91 937 729 5575

investment decision.

Place: Ahmedabad, Gujarat

Date: August 16, 2022

DEBENTURE TRUSTEES: As this is an issue of Equity Shares, the appointment of Debenture Trustees is not required. IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency. BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in section titled "BASIS FOR ISSUE PRICE" on page no. 70 of the Prospectus are based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the sections/chapters titled "RISK FACTORS" and "RESTATED FINANCIAL INFORMATION" on page no. 20 and 145 respectively of the Prospectus to get more informed view before making the

RISK TO INVESTORS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares offered in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "RISK FACTORS" beginning on page no. 20 of the Prospectus. AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application Forms may be obtained from the Registered Office of our Company i.e. "JFL LIFE SCIENCES LIMITED", the Lead Manager to the Issue i.e. "GYR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED", the Registrar to the Issue i.e. "KFIN TECHNOLOGIES LIMITED". The application forms may also be downloaded from the website of National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com. Application supported by Block Amount forms shall be available

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus, and the Risk Factors contained therein, before applying in the issue. Full copy of the Prospectus is available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), website of the issuer Company (www.ifllifesciences.com;), the website of the Lead Manager to the Issue (www.gyrcapitaladvisors.com) and on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). Investor should note that investment in equity shares involves high degree of risk. For details, investor should refer to and rely on the prospectus, including the section titled "RISK FACTOR" on page no. 20 of the prospectus, which has been filed with ROC.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors may apply through the ASBA process. ASBA can be availed by all the investors except Anchor Investors. All potential investors are mandatorily required to participate in the Issue through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process. The Investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their Banks which, in turn will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA Form and undertake other tasks as per the specified procedure. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com. ASBA forms can be obtained from the list of banks that is available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindla.com. For more details on ASBA process, please refer to details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the section "ISSUE PROCEDURE" beginning on page no. 185 of the Prospectus.

Capitalized terms used herein and not specifically defined herein shall have the meaning given to such terms in the Prospectus. BANKER TO ISSUE, REFUND BANKER AND SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED

with designated branches of Self Certified Syndicate Banks, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

For and On behalf of the Board of Directors For JFL LIFE SCIENCES LIMITED

Mr. Smiral Ashwinkumar Patel

JFL LIFE SCIENCES LIMITED is proposing, subject to market condition and other considerations, a public issue of its Equity shares and has filed the prospectus with the registrar of companies. Ahmedabad ("ROC"). The prospectus is available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), website of the Issuer Company

Chairman & Managing Director

including the section titled "RISK FACTOR" on page no. 20 of the prospectus, which has been filed with ROC, before making any investment decision The equity shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "securities act") and may not be offered or sold within United States (as defined in regulations under the Securities Act) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirement of

New Delhi

(www.jfllifesciences.com), the website of the Lead Manager to the Issue (www.gyrcapitaladvisors.com) and on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). Investor should note that investment in equity shares involves high degree of risk. For details, investor should refer to and rely on the prospectus.

the Securities Act. The equity shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transaction in compliance with regulations under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occurs.

financi<mark>alem epan</mark> in

Place : Gurugram

Date : August 12, 2022

and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, as

The unaudited financial results for the guarter ended June 30, 2022, which have been subjected to limited review by the statutory auditor of the

the Board of Directors and were not subject to limited review by Statutory Auditor of the Company.

6 Excluding lease liabilities but including the derivative financial instruments. 7 Earnings per share for the interim periods are not annualised

9 The above financial results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and on the Company website (www.ayefin.com). can be accessed at https://www.bseindia.com.

Managing Director

(a) pnb Housing

दूरभाषः 011—23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com परिपाद कारिया काराया काराया काराया काराया काराया काराया काराया है क्या पर अध्याप कर ह**दानी:** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, संवल प्लाजा, प्रथम तल, दुर्गा सिटी सेंटर, दिल्ली—नैनीताल तेड, हव्हानी—263139, क्लारायंड, **हरिदार :** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली हरिद्वार मुख्य मार्ग, अरबिंदो आश्रम के समीप, रानीपुर मोड़, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार—249407,

कानपुर: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तीसरा तल, 16/104ए, श्री सिद्धिविनायक बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, कानपुर 208001 तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद "पीएनबीएंचएफएल" के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से नीचे वर्णित आप सभी उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ता / गारंटरों को निर्गत की गई थी और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आपके खाते को किस्तों / ब्याज का भुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवासन बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। उस मांग सूचना की विषयवस्तु जो है वह मूलधन, ब्याज, इत्यादि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूके हैं। इसके अलावा, अनेक कारणों से, हम मानते हैं कि आप मांग सूचना का पालनानुपालन करने से बच रहे हैं और इसलिए हम उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी अनिवार्य बन चकी इस मांग सचना का यह प्रकाशन कर रहे हैं। आपको एतददारा इस मांग सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की एकावधि के भीतर अद्यतन ब्याज और शल्कों के साथ उक्त राशि का पीएनबीएचएफएल को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। भुगतान करने में विफल होने पर पीएनबीएचएफएल जो है वह उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत सभी प्रतिभूत परिसंपत्तियों या इनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध अनिवार्य कार्रवाई / उपाय करेगी जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर आधिपत्य किए जाने की कार्रवाई में सम्मिलित होगी। आपका ध्यानाकर्षण उस स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके आधार पर आप निजी संधि द्वारा अथवा जनता से कोटेशनें व निविदा आमंत्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभृत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही पीएनबीएचएफएल द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के साथ बकाया धनराशियों की संपूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं/उसे चुका सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्रविधि के अंतर्गत उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित

क. ऋण सं. खाता संख्या एवं शाखा	उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ता का नाम और पता	बंधककृत संपत्ति(या)	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना तिथि के अनुसार बकाया राशि
1. HOU/HWR/ 1119/756844 शा.का.ः हरिद्वार	श्री / सुश्री अरुणा (उघारकर्ता), श्री / सुश्री आशु (सह—उधारकर्ता), पताः कृष्णा विहार, निकट डेंसो चौक, सलेमपुर, बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड 249407 तथा मकान संख्या 116, पूर्वबलियां, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 251203, भारत	मूखंड सं. 73 एवं 74, खसरा सं. 906 एम / 1 जो ग्राम—ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जनपद— हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत, 249407	15.07.2022	रु. 15,22,001.73/- (रुपए पंद्रह लाख बाईस हजार एक एवं तिहत्तर पैसे मात्र) 15.07.2022 के अनुसार देयराशियां
2. HOU/KNP/ 0818/564498 & NHL/KNP/ 0818/572116 शा.का.: कानपुर	श्री राजन शर्मा (उधारकर्ता), श्री रामजी शर्मा एवं श्रीमती वंदना शर्मा (सह—उधारकर्ता), पता— मकान सं. सी 1/6, एचआईजी कॉलोनी, वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, बर्रा, कानपुर, कानपुर नगर, उ.प्र. 208027, भारत	सी—1/6, ब्लॉक नं. सी—1, एचआईजी, बर्रा (केयूडीपी), कानपुर, कानपुर नगर, उ.प्र. 208027, भारत, अधिमापन 297.90 वर्ग मीटर जो कानपुर नगर में स्थित है और इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व— भूखंड सं. 05, पश्चिम— भूखंड सं. 07, उत्तर— सर्विस रोड, दक्षिण— भूखंड सं. 54 एवं 55	30.07.2022	रु. 79,91,453.76/- (रुपए उन्यासी लाख इक्यानबे हजार चार सौ तिरेपन एवं छिहत्तर पैसे मात्र) 30.07.2022 के अनुसार देयराशियां



एयु स्माल फाइनन्स बक लामढड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A. धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयु स्मॉल फाईनेंस बँक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों / सह-ऋणीयों / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी /ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेत् खतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभृत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्भिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सुचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सुचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा वा पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्वान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) संपठित नियम 3 (5) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभृत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सुचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भगतान करके मुक्त करवा सकते हैं।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060100745349 & L9001061124535025 विनोद कुमार (ऋणी), श्रीमती मिथिलेश (सह-ऋणी)	06 अगस्त 2022 ₹ 1198861/- रु. ग्यारह लाख अटानवे हजार आठ सौ इकसठ मात्र व ₹ 290162/- रु. दो लाख नब्बे हजार एक सौ बासठ मात्र विनांक 05 अगस्त 2022 तक	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 2301, करेहा मोहन नगर, जिला-गाजियाबाद, यू.पी. पूर्व- विक्रेता की सम्पत्ति, पश्चिम-विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तर-रोड 16 फीट, दक्षिण-हरवीर व अन्य का प्लॉट क्षेत्रफल 3350 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060117178310 रविशंकर सिंघल (ऋणी), शीतल सिंघल (सह-ऋणी)	06 अगस्त 2022 ₹ 1638969/- रु. सोलह लाख अडतीस हजार नौ सौ उनेतर मात्र दिनांक 05 अगस्त 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फीहोल्ड-नगरपालिका सीमा में 1423 परगना गाजियाबाद, लोनी उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 150 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060117397024 पं कज शर्मा (ऋणी), सुशीला (सह-ऋणी)	06 अगस्त 2022 ₹ 2296657/- रु. बाईस लाख छियानवे हजार छह सौ सतावन मात्र दिनांक 05 अगस्त 2022 तक	सम्पत्ति रिथत नगर निगम 98 प्लॉट नं. 1 644, वार्ड नं386, लोनी गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 200 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060820518620 & L9001061121150892 बीआर गारमेन्टस (ऋणी), पंकज शर्मा (सह-ऋणी), प्रवीण शर्मा (सह-ऋणी), सुशीला (सह-ऋणी)	06 अगस्त 2022 ₹ 1507090/- रु. पंद्रह लाख सात हजार नब्बे मात्र व ₹ 240916/- रु. दो लाख चालीस हजार नौ सौ सोलह मात्र दिनांक 05 अगस्त 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फीहोल्ड-नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी प्लॉट नं. 1 म नं. 98 664 सबलू गांधी गाजियाबाद, दिल्ली क्षेत्रफल 200 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060821301742 विनोद डेयरी जरिये प्रोपराइटर विनोद कुमार, विनोद कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती मिथिलेश (सह-ऋणी)	06 अगस्त 2022 ₹ 365052/- रु. तीन लाख पँसठ हजार बायन मात्र दिनांक 05 अगस्त 2022 तक	सम्पत्ति रिधत फीहोल्ड-नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी प्लॉट नं. 80 खसरा नं. 2301, ग्राम खेरडा परगना, तह व जिला-गाजियाबाद, यू.पी. पूर्व-विक्रेता की सम्पत्ति, पश्चिम-विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तर-रोड, दक्षिण-हरवीर व अन्य का प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060117678942 & L9001061124293352 श्री सॉई मेडिकल एजेन्सी जरिये प्रोपराइटर पंकज चौहान, पंकज चौहान (सह-ऋणी), प्रमोद कुमार सिंह (सह-ऋणी)	06 अगस्त 2022 ₹ 1301310/- रु. तेरह लाख एक हजार तीन सौ दस व ₹ 264610/- रु. दो लाख चौसठ हजार छह सौ दस मात्र दिनांक 05 अगस्त 2022 तक	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 30/19, वाका मौजा सारां, सब, डबुआ, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा पूर्व-रास्ता, पश्चिम-डीगर, उत्तर-बाँया हिस्सा, दक्षिण-डीगर क्षेत्रफल 101.400 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060118800638 अजमत खान (ऋणी), नर्गिस खान (सह-ऋणी)	06 अगस्त 2022 र 1343515/- रु. तेरह लाख तियालिस हजार पाँच सौ पंद्रह मात्र दिनांक 05 अगस्त 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फीहोल्ड-नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 106 69 14, 1 15, 16 गली नं. 6 फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हरियाणा क्षेत्रफल 105 वर्ग गज

Booking ₹ 7 2 Advertisement 7 धरोहर राशि भगतान (ईएमडी): रु. 52,100/-, बोली की तिथि एवं समय: 24.8.2022 से 2

20-66

~

Ŧ

For

11000

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 13.08.2022

दक्षिण रेल, विद्युत (टीआरडी) शाखा, तिरुचिरा पल्ली मंडल भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक, टैक्शन वितरण, दक्षिण रेलवे,

| तिरुचिरापल्ली–620001 द्वारा निम्न कार्य के लिये संभावित निविदाओं/बोलीदाताओं से ऑन लाइन ई निविदा आमंत्रित है: निविदा संख्याः टीपीजे-टीआरडी-2022-2023-04

कार्य का नाम: डीपीजे मंडल-दो वर्षों की अवधि के लिये बीएम-बीएलआर खंड में सॉफ्टेवयर, आरसीसी उपकरण तथा आरटी य'ज के साथ सम्पर्ण एससीएडीए सिस्टम का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनबंध। निविदा की अनुमानित मुल्यः रु. 26,04,414.11/-, निविदा बुकलेट का मुल्यः रु. 3360/

7.9.2022 के 15.00 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एवं समय: 07.09.2022 को 15.00 बजे के बाद, पूर्णता अवधि: 24 माह, प्रस्ताव की वैद्यता अवधि: निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन **टिप्पणी**: 1. संभावित निविदाकारी/बोलीदाओं से आग्रह है कि ई-निविदा में भागीदारी के लिये. यदि पर्व में नहीं किये हों, आईआरईपीएस (भारतीय रेलवे इलेक्टॉनिक प्रापण प्रणाली) में अपना पंजीकरण कर

िलें। पंजीकरण प्रपत्र आईआरईपीएस साईट (क्विक लिंक न्य वेण्डर्स/ठेकेदारों (ई-निविदा) पर उपलब्ध है। 2. ठेकेदारों/बोलीदाताओं से आग्रह है कि ई-निविदाओं में भागीदारी के लिये भारत सरकार के प्राधिकत प्रमाणन प्राधिकरण (सीसीए-प्रमाणकर्ता प्राधिकरण नियंत्रक) से डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) क्लास III अथवा उपयुक्त प्राप्त करें जो आईआरईपीएस में लॉग करने के लिये अनिवार्य है। 3. ई-निविदा के लिये निविदा मुल्य एवं ईएमडी (यदि कोई हो) का भृगतान केवल नेट बैंकिंग अथवा पेमैन्ट गेटवे (ऑनलाइन भृगतान) द्वारा अथवा जीसीसी-2022 के अनुसार बीजी के रूप में किया जायेगा। निविदा दस्तावेज मल्य के बिना प्राप्त निविदा निरस्त कर दी जाएगी। 4. सम्पर्ण विवरणों उक्त निविदा के नियमों एवं शर्तों तथा बोली जमा करने के विवरणों के लिये कपया http://www.ireps.gov.in पर लॉग ऑन करें तथा ऑनलाइन बोली डिजीटली हस्ताक्षरित होनी चाहिये। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि अपलोड की गई दस्तावेजों को देखें। 5. सभी संबर्धन/शब्दि पर समय-विस्तार, स्पष्टीकरण आदि केवल वेबसाईट में अपलोड की जाएगी तथा अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी। स्वयं को अपडैट बनाये रखने के लिये बोलीदाता वेबसाईट देखते रहें। 6. निविदा खुलने के लिये निविदाकारों को कार्यालय में उपस्थित रहना जरुरी नहीं है क्योंकिं वे आईआरईपीएस के माध्यम से ऑन लाइन निविदा खुलने की स्थिति को देख सकते हैं। मंडल रेलवे प्रबंधक. विद्यत टैक्शन वितरण.

> दक्षिण रेलवे, तिरुचिरापर्ल्ल Follow us on : twitter.com/GMSRailway

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74999DL1991PLC045678 गंजी. कार्यालयः 302, 3रा तल, सी–2/4, कम्युनिटी सेन्टर, फेज–2, अशोक विहार, दिल्ली–110052 ईमेल आईडी: saidustri693@gmail.com, 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डएलान वित्तीय परिणामों का विवरण

विवरण	ē.		स्टैण्डएलान		- 3
		समाप्त तिमाही		समाप्त	वर्ष
	30.06.2022 अलेखापरीक्षित	30.06.2021 अलेखापरीक्षित	31.03.2022 अलेखापरीक्षित	31.03.2022 लेखापरीक्षित	31.03.2021 लेखापरीक्षित
1. प्रचालनों से कुल आय	0	0	0	0	1.41
2. अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-0.02	-0.89	-74.15	-79.1	-28.52
3. कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	-0.02	-0.89	-74.15	-79.1	-28.52
4. कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात कुललाभ/(हानि)	-0.02	-0.89	-74.15	-79.1	-28.52
5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	296.76	296.76	296.76	296.76	296.76
प्रदत्त इक्किटी रोयर पूंजी पुत्रम्ं प्रविकार आरक्षितियों को छोड़कर आरक्षियां	(455.44)	(377.21)	(455.42)	(455.42)	(376.31)
8. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु (क) मूल (रु.) (ख) डाइल्यूटेड	-	(0.03)	(2.50) (2.50)	(2.67) (2.67)	(0.96) (0.96)
टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम, 33 के तहत र का एक सारांश है। पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा कंपनी की वेबसाइट			तिमाही वित्तीय		वेस्तृत प्रारूप के आदेशानुसार

प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड सीआईएन: L65910DL1995PLC064310

पंजी. कार्यालय: 500, 5वां तल, आईटीएल दिवन टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ई-मेल आईडी: info@progressinvefinlease.in

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैंडएलोन वित्तीय परिणामों का विवरण (राशि रु. लाख में

	समाप्त तिमाही			समाप	त वर्ष
	30.6.2022 अलेखापरीक्षित	30.06.2021 अलेखापरीक्षित	31.3.2022 अलेखापरीक्षित	31.3.2022 लेखापरीक्षित	31.3.2021 लेखापरीक्षित
. प्रचालनों से कुल आय	12.73	21.4	9.07	105.85	49.38
. अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) लाभ/(हानि)	0.99	(25.68)	(8.66)	1.02	2.32
. कर पूर्व अविध हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	0.99	(25.68)	(8.66)	1.02	2.32
. कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	0.99	(25.68)	(8.66)	0.76	1.72
. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70
. पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर आरक्षियां	106.53	79.10	105.54	405.54	104.78
. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) (क) बेसिकः	1.01	(0.29)	(0.10)	0.01	0.02
(ख) डाइल्युटेडः	1.01	(0.29)	(0.10)	0.01	0.02

राजीव जैन स्थानः दिल्ली तिथि: 12.8.2022 DIN: 03438127

RAAMA PAPER MILLS LIMITED

(Formerly known as Rama Paper Mills Limited) 4th Km. Stone Najibabad Road, Kiratpur-246731 District Bijnor U.P.

CIN: L27104UP1985PLC007556 Website: www.ramapaper.com, E-mail: cs@ramapaper.com

Extract of Un-Audited Financial Results For the Quarter ended on 30th June 2022

Rs. in Lakhs SI. No. **Particulars** Ending Year Ending Ended as or 30 06 2022 31 03 2022 30 06 202

	30.00.2022	31.03.2022	30.00.2021
Total income from operations (Net)	1990.93	7941.50	2376.01
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	139.14	262.64	325.58
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items	139.14	262.64	325.58
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	139.14	262.64	325.58
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period	139.14	262.64	325.58
(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)			
Equity Share Capital	96.64	96.64	96.64
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of			
previous year)			
Earning Per Share (of ₹ 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
Basic:	1.44	2.72	3.37
Diluted:	1.44	2.72	3.37
	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) Earning Per Share (of ₹ 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic:	Total income from operations (Net) Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) Earning Per Share (of ₹ 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic: 139.14 139.14 139.14 139.14 139.14 139.14 139.14	Total income from operations (Net) Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) Earning Per Share (of ₹ 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic: 1.44 2.72

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 12th August 2022 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure

2. The above is an extract of the details format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of quarterly Financial

Results has been uploaded on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com. 3. Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS/ AS Rules whichever is applicable

By order of the Board for Raama Paper Mills Limited

Pramod Agarwal Managing Director (DIN: 00038838)

जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड CIN: L65999DL1984PLC018035

पंजी. कार्यालय: 5वां तल, आईटीएल टिवन टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ईमेल आईडी: info@jdsfinace.in

२०२२ को समान निमारी हेन अलेखामीथिन स्टैंगालॉन विनीय प्रिणामों का विवस

विवरण			स्टैंडएलॉन		
		समाप्त तिमाह	fi 	समाप	त वर्ष
	30.6.2022 अनंकेक्षित	30.06.2021 अनंकेक्षित			31.3.202 अंकेक्षित
1. प्रचालनों से कुल आय	3.78	0.14	2.1	5.5	18.5
2. अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	2.34	(34.31)	(290.16	(324.10)	0.2
3. कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	2.34	(34.31)	(290.16	(324.10)	0.2
4. कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	2.34	(34.31)	(290.16	(324.10)	0.2
5. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	573.50	573.50	573.5	573.50	573.5
6. पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर आरक्षियाँ	(306.19)	(18.74)	(308.53	(308.53)	15.5
7. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) क) बेसिकः	0.04	(0.60)	(5.07	(5.65)	0.0
ख) डाइल्युटेडः	0.04	(0.60)	(5.07	(5.65)	0.0

तिथि: 12.8.2022

Date: 12th August 2022

Place : Kiratpur

(राशि रू लाख में)

कृत्ते साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्रबंध निदेशक

अनिल कुमार जैन

बोर्ड के आदेश

जे डी एस फाइनांस कम्पनी लि

जटालिया ग्लोबल वेन्चर्स लिमिटेड पंजी. कार्यालयः 500, 5वां तल, आईटीएल ट्विन टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ईमेलः info@jatalia.in, CIN: L74110HR1987PLC350280

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण (राशि रु. लाखो में)

-		Ô		स्टैंडएलॉन		
	विवरण		समाप्त तिमाही	Ť	समाप	प्त वर्ष
	विवर्ष	30.6.2022 अलेखापरीक्षित	30.6.2021 अलेखापरीक्षित	31.3.2022 अलेखापरीक्षित	31.3.2022 लेखापरीक्षित	31.3.2021 लेखापरीक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	5.05	0	4.39	4.39	11.92
2.	अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) लाभ/(हानि)	(53.93)	(344.94)	(496.66)	(876.54)	(142.11)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(53.93)	(344.94)	(496.66)	(876.54)	(142.11)
4.	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(53.93)	(344.94)	(509.65)	(889.53)	(133.99)
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1497.56	1497.56	1,497.56	1497.56	1497.56
6.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर आरक्षियां	156.04	736.32	210.87	210.87	1100.37
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) क) बेसिक : ख) डाइल्यूटैंड :	(0.04) (0.04)	(0.23) (0.23)	(0.34) (0.34)	(0.59) (0.59)	(0.09)
-						

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणामें वे विस्तृत प्रारूप का सारांश है। प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा कम्पनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

स्थानः दिल्ली तिथि: 13.08.2022 DIN: 00014601

IFL PROMOTERS LIMITED Regd. Office: A-66, SECOND FLOOR, GURU NANAK PURA VIKAS MARG.

दिनांकः 16-08-2022

promoters.ifl@gmail.com, CIN No. L65910DL1992PLC049014 STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND THREE MONTH ENDED ON 30TH JUNE, 2022

SI. No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	
1	Total income from operations (net)	18.05	64.56	16.14	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.10	13.52	4.23	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.10	(7.57)	4.23	
4	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	3.03	9.76	3.13	
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.03	(11.33)	3.13	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]**	3.03	(11.33)	3.13	
7	Equity Share Capital	725.84	725.84	725.84	
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)		(AS PERp 31-03-2022)		
9	Earnings Per Share (Face value of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations)	9			
	-Basic (not annualized)*	0.004	-0.016	0.004	
	-Diluted (not annualized)*	0.004	-0.016	0.004	

at its meeting held on August 14, 2022. 2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financia Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and on company's websites 3 Pursuant to Circular No. cir/cfd/cmd/56/2016 dated 27th May, 2016, we declared that the results are not qualified by the auditors of the company and the Limited Review Report issued by them has unmodified opinion IFL Promoters Limite

Place: Delhi Date: August 14, 2022

स्थान : दिल्ली

प्रपत्र सं. सीएए. 2

[धारा 230 (3) और नियम 6 व 7) के अनुपालन में] कंपनी याचिका संख्या सीए (सीएए)-64/(एनडी)/2022

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित धारा 230-232 के अंतर्गत, ग्लौकस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी") का बिगफुट रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी") तथा उसके संबंधित अंशधारकों एवं लेनदारों के

DIN: 0015728

ग्लौकस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित अंशों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी, जिसकी निगमित पहचान संख्या U74140DL2015PTC282974 है, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी–112, जी / एफ, निकट कॉर्पोरेशन बैंक, 60 फूटा रोड, छतरपूर . हस्तांतरणकर्ता कंपनी एन्क्लेव, नई दिल्ली-110074 में स्थित है .

साथ उनके बीच समामेलन की योजना के विषय में।

ग्लौकस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक प्राधिकरण, न्यायालय VI, नई दिल्ली के एक आदेश दिनांकित 10 जून 2022 (''आदेश'') द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि ग्लौकस सप्लाई चेन न्यूशंस प्राइवेट लिमिटेंड (''कंपनी'') और बिगफुट रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके संबंधित अंशधारकों एवं लेनदारों के मध्य समामेलन की योजना (''योजना'') पर विचार करने, और यदि उचित समझा जाता है तो संशोधन सहित या इसके बिना योजना का अनुमोदन करने के उद्देश्य से ''कंपनी' के अप्रतिभूत ऋणदाताओं की एक बैठक का आयोजन किया जाए। आदेश का अनुपालन करते हुए तथा वहां उसके अंतर्गत प्रसारित अन्य सूचना में दिए गए निर्देशानुसार

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के अप्रतिभत ऋणदाताओं की एक बैठक का आयोजन रविवार 18 सितंबर 2022 को अपराह्न 04.00 बजे दि पार्क, संसद मार्ग, हनुमान रोड एरिया, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 में किया जाएगा। अतः उक्त अप्रतिभत ऋणदाताओं से अनरोध किया जाता है कि उक्त स्थान, तिथि एवं समय पर आयोजित होनेवाली बैठक में उपस्थित हों। उक्त योजना की प्रतियां, और धारा 230 के तहत निर्गत विवरण की प्रतियां, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय

से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्ति, व्यक्तिगत कप में या प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं (निम्न वर्णितानुसार रिमोट ई–वोटिंग के अतिरिक्त), परंतु शर्त यह है कि बैठक से 48 घंटे पहले निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सीज के बारे में कंपनी के पंजीकत कार्यालय डी–112, जी / एफ, निकट कॉर्पोरेशन बैंक, 60 फूटा रोड, छतरपुर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110074 में सूचना उपलब्ध करा दी जाए।

प्रॉक्सी के प्रपत्र, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं और कंपनी ने अपनी सूचना के हिस्से के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक साझा किया है। कंपनी ने बैठकों से पहले और रविवार 18 सितंबर 2022 को होने वाली बैठक के स्थान पर रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट करने का विकल्प भी प्रदान किया है, ताकि अप्रतिभूति ऋणदाताओं को उपरोक्त विषयगत योजना पर विचार करने में सक्षम बनाया जा सके और यदि वे उचित समझें तो योजना को स्वीकृति प्रदान कर दें। कंपनी ने 16 अगस्त 2022 को, 31 मार्च 2022 (''कट ऑफ तिथि'') के अनुसार अपने सभी अप्रतिभूत

ऋणदाताओं को भौतिक प्रारूप में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है। रिमोट ई—वोटिंग अवधि बृहस्पतिवार 14 सितंबर 2022 को प्रातः 10.00 बजे आरंभ होगी, और 17 सितंबर 2022 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, अप्रतिभृत ऋणदाता कट ऑफ तिथि के

अनुसार रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डालने से अप्रतिभृति ऋणदाताओं को बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने से वंचित नहीं किया जाता है, हालांकि, जिन्होंने बैठक की तिथि से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

कृपया भागीदारी के तरीके की पहले से पुष्टि कर लें। आपकी पुष्टि के अभाव में, यह माना जाएगा कि आप बैठक में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होंगे और ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सचना तथा ई—वोटिंग अनुदेश कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अधिकरण ने उक्त बैठक की अध्यक्ष के रूप में सश्री सीमा बहगणा को नियक्त किया है और उनके असफल होने पर श्री गौतम सिंघल को नियक्त किया है। समामेलन की उपर्युक्त योजना, यदि बैठक द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो भी अधिकरण द्वारा बाद अनुमोदित किए जाने के अधीन होगी।

किसी भी प्रश्न के संबंध में व्यक्तिगण, संतोष वर्मा से contact@glaucuslogistics.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 16 अगस्त, 2022 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता. / सुश्री सीमा बहुगुणा बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

मैगनम वैंचर्स लिमिटेड सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एचएनओ—एमएन ० १, हब औरओक , ई — 14 , लोअर ग्राउंड फ्लोर , डिफेंस कॉलोनी , नई दिल्ली — 110 0 2 4 . दूरभाष :+91–11–42420015 ई–मेल :magnumventures@gmail.com वेबसाइट :www.magnumventures.in

> 42 वीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तक बंद करने और दुरस्थ ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 42 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 09 सितंबर, 2022 को वीढियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से दोपहर 01:00 बजे आयोजित की जाएगी ताकि सामान्य और विशेष व्यवसाय का लेनदेन किया जा सके, जैसा कि उक्त वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना और दूरस्थ ई—वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को भेजे गए हैं, जो रिकॉर्ड तिथि, यानी 12 अगस्त, 2022 को ईमेल द्वारा शेयर रखते हैं तथा जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी (ओं) के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तारीख 17 अगस्त, 2022 है। उक्त दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी देखा जा सकता ह ।

सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 19/2021, 21/2021 और 02/2022

दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किया गया और परिपन्न सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 और सेबी / एचओडीडीएच / पी / सीआईआर / 2022 / 0063 दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022, क्रमशः, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपन्न' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनमति दी गई।यदि आपने डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2021—22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों

फिजिकल होल्डिंगः ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट एंड बैक), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करने के लिए info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें । कृपया मूल रह किए गए चौक के साथ अपने बँक विवरण को फोलियो नंबर का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ हमारे आरटीए (यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी -34 दसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण -2, नई दिल्ली -110020) को भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

डीमैट होल्डिंगः कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनसार अपना इमेल पता पंजीकत करें। कपया कंपनी द्वारा घोषित होने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें।

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 3 सितंबर, 2022 से 9 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और

प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी ने अपने पोर्टल के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों का लेनदेन करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है, ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सर्के ।

सदस्य कृपया निम्नलिखित परध्यान दें

तिथि : 17.08.2022

स्थान : गाजियाबाद

क) दूरस्थ ई—वोटिंग मंगलवार, 6 सितंबर, 2022 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 8 सितंबर 2022 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी।

ख) एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि 2 सितंबर, 2022 है।

ग) कोई भी व्यक्ति जो बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी 2 सितंबर, 2022 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या मेसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड. कंपनी के आर एंड टी एजेंट पर टी -34, दसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली—110020 फोनः 011—26387281 / 82 / 83, फैक्सः 011—26387384, ईमेलः info@masserv.com

में अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है । घ) हालांकि; यदि सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना बोट डालने के लिए अपनी मौज़दा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

छ) एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की

अनुमति नहीं दी जाएगी। च) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है. वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

 छ) सदस्य एजीएम नोटिस में प्रदान किए गए विस्तृत ई-वोटिंग निर्देशों का अध्ययन कर सकते हैं या https://evotingindia.com का दौरा कर सकते हैं और ई—योटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत को सश्री आइना गुप्ता, कंपनी सचिव, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड को cs_mvl@cissahibabad.in पर या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com को सम्बोधित कर

ज) श्री मुनीष कुमार शर्मा (एडवोकेट एंड इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल), को ई—वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्क्रूटनीजर के रूप में नियुक्त किया गया हैं। मैगनम वैंचर्स लिमिटेड के लिए हस्ता/-

> प्रदीप कुमार जैन (प्रबंध-निदेशक) डीआईएन: 0 0 0 24879

ATS INFRABUILD PRIVATE LIMITED

Regd. Off.: 711/92, Deepali, Nehru Place, New Delhi-110019 CIN: U45400DL2007PTC168922; Phone No.: 0120-7111500; Fax No.: 0120-7111550 Email Id.: compliances@atsgreens.com; Website: www.atsgreens.com

ANNEXURE I

Format for publishing financial results in newspapers

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (Amounts in INR Lacs except per share data and ratios)

		For the Quarter ended	For the Quarter ended	For the Year ended
S. No.	Particulars	30.06.2022	31.03.2022	31.03.2022
		Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	874.81	1,230.26	6,590.82
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	(9.67)	9.93	93.67
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(9.67)	9.93	93.67
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(0.95)	0.45	31.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(0.95)	(3.54)	27.25
6	Paid-up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(966.68)	(965.73)	(965.73)
8	Net worth	(965.68)	(964.73)	(964.73)
9	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	15,561.00	14,789.52	14,789.52
10	Outstanding Redeemable Preference Shares		-	-
11	Debt Equity Ratio*	(16.11)	(15.33)	(15.33)
12	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	(for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic: (in Rs)	(9.53)	4.55	312.43
	2. Diluted: (in Rs)	(9.53)	4.55	312.43
13	Capital Redemption Reserve	- 1	-	-
14	Debenture Redemption Reserve	-	-	-
15	Debt Service Coverage Ratio*	(0.0048)	0.00077	0.01
16	Interest Service Coverage Ratio*	(0.03)	0.03	0.07

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of quaterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quaterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s).

d) *- The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other

c) #-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules,

whichever is applicable.

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. **e)** Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

For and on behalf of Board of Directors of

ATS Infrabuild Private Limited

Sd/-

Lovely Pathak Director DIN- 06401442

Getamber Anand Director Place: Noida DIN-00120610 Date: 16.08.2022

www.readwhere.com